



**INTELLECTUAL  
PROPERTY INDIA**

PATENTS | DESIGNS | TRADE MARKS  
GEOGRAPHICAL INDICATIONS



सत्यमेव जयते

क्रमांक : 044140640  
SL No :



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

पेटेंट कार्यालय  
THE PATENT OFFICE

पेटेंट प्रमाणपत्र  
PATENT CERTIFICATE  
(Rule 74 Of The Patents Rules)

पेटेंट सं. / Patent No. : 395404  
आवेदन सं. / Application No. : 201841003631  
फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 31/01/2018  
पेटेंटी / Patentee : INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS (IIT  
MADRAS)  
आविष्कारक (जहां लागू हो) / Inventor(s) : 1.Dr. Parasuraman Selvam 2.Surya Kumar Vatti

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित PROCESS FOR THE PREPARATION OF ORDERED MESOPOROUS TITANIA (TMP-123) WITH ANATASE AND MONOCLINIC PHASES: A NEW GENERATION PHOTOCATALYST नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, १९७० के उपबंधों के अनुसार आज तारीख 31st day of January 2018 से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled PROCESS FOR THE PREPARATION OF ORDERED MESOPOROUS TITANIA (TMP-123) WITH ANATASE AND MONOCLINIC PHASES: A NEW GENERATION PHOTOCATALYST as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 31st day of January 2018 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.



अनुदान की तारीख : 26/04/2022  
Date of Grant :

पेटेंट नियंत्रक  
Controller of Patent

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, 31st day of January 2020 को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 31st day of January 2020 and on the same day in every year thereafter.